



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] बई दिल्ली, शनिवार, मार्च 27-अप्रैल 2, 2004 (चैत्र 7, 1926)
No. 13] NEW DELHI SATURDAY, MARCH 27-APRIL 2, 2004 (CHAITRA 7, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 327
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	301
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	317
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृतपाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 265
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अखिल भारतीय कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	265
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	1837
भाग III—खण्ड 3—पुष्पा प्रायुक्तों के प्राधिकार के अखिल भारत द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विधिवि अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विज्ञापनों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	0229
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी नितायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	93
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में कर्म और मृत्यु के आंकड़ों की दशानि वाला सम्पूर्णक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	327	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	301	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	265
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	317	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1837
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1229
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	93
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2004

संकल्प

सं० VI-डी० एण्ड पी०/8/2001/टी०टी०—औषधि एवं भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने, उद्योग/सैन्य/सिवाय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने और देश में आधुनिकतम (स्टेट ऑफ़-अर्ट) सुविधाओं के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निश्चित धनराशि (कार्पस) और पी० आर० डी० एफ० एफ० पर उपाजित ब्याज के उपयोग से भेषज अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी० आर० डी० एफ० एफ०) की स्थापना का निर्णय लिया है। सरकार ने पी० आर० डी० एफ० एफ० के प्रकाशन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रकाशनिक निदेशक के अधीन औषधि विकास संवर्धन बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया है। वित्तीय सहायता के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति इस बोर्ड की सहायता करेगी। बोर्ड एवं विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों, देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं वैज्ञानिक संस्थाओं (सी०एस० आई०आर/आई०सी०ए०आर०/आई०सी०एम० आर०/यू०जी० सी० डी० ओ० आदि) को प्रेषित कर दी जाए।

इस भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को उत्तम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अमिताभ पाण्डे

संयुक्त सचिव

अनुच्छेद

डी डी पी बी और पी आर डी एस एफ के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

1. औषधि विकास संवर्धन बोर्ड (डी डी पी बी)

अध्यक्ष—सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

सदस्य

महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर)

सचिव, रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सचिव, आयुष विभाग

महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर)

योजना आयोग (उद्योग प्रभाग)

संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति

अध्यक्ष, इंडियन ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आई डी एम ए)

अध्यक्ष, बल्क ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (बी डी एम ए)

अध्यक्ष, इंडियन फार्मास्यूटिकल्स अलायन्स (आई पी ए)

अध्यक्ष, इंडियन मेडिकलल्स एसोसिएशन (आई एम ए)

सदस्य-सचिव (प्रमुख, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

II. पी आर डी एस एफ के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

अध्यक्ष—सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक

रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग के प्रतिनिधि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि

आयुष विभाग के प्रतिनिधि

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) के प्रतिनिधि

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) के प्रतिनिधि

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) के प्रतिनिधि

निदेशक, राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई पी ई आर)

प्रमुख, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित चार विशेषज्ञ

सदस्य-सचिव—प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रभाग में समकक्ष अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2004

संकल्प

सं० 2/9/2002-वे० प्र०—जल संसाधन मंत्रालय ने संकल्प सं० 2/9/2002-वे० प्र० दिनांक 13-2-2003 को जारी किया जिसके द्वारा संकल्प सं० 1(7)/80-पी० पी०, दिनांक 26-8-1981 के पैरा क्रमांक 3 और 5, जिसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा० ज० वि० अ०) के सोसाइटी एवं शासी निकास की संरचना है, को संशोधित किया गया। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी ने 9-1-1986 को सम्पन्न विशेष आम सभा में जल संसाधन मंत्रालय के अपर सचिव को सोसाइटी एवं शासी निकाय का सदस्य बनाने का संकल्प किया था।

जल संसाधन मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 13-2-2003 द्वारा संशोधित संकल्प सं० 1/(7)/80-पी० पी०, दिनांक 26-8-1981 के पैरा क्रमांक 3 को अब संशोधित करते हुए सचिव, जल संसाधन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो कि संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हों एवं अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय को सोसाइटी का सदस्य बनाया जाता है। उक्त संकल्प के पैरा 5 को आगे संशोधित करते हुए अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय को शासी निकाय का सदस्य बनाया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी एवं सैन्य सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के लेखा एवं महा-नियंत्रक, योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को सूचनाार्थ प्रेषित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने के मामले संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

ए० डी० भारद्वाज
आयुक्त

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2004

संकल्प

सं० ई-11015/8/2002-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 22-1-2003 के संकल्प संख्या ई/11015/8/2002-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए क्रम सं० 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है :-

क्रम सं० 1 पर

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार) —

अध्यक्ष

दिनांक 22-1-2003 के समसंख्यक संकल्प में क्रम सं० 2 को निकाल देने के फलस्वरूप आगे की क्रम सं० स्वतः बदल जाएंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रसिद्धि समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुधीर शर्मा, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi, the 5th March 2004

RESOLUTION

No. VI-D&P.8/2001/TT—The Government of India, recognizing the importance of Research and Development (R&D) in Drugs and Pharma Sector, have decided to establish Pharmaceuticals Research and Development Support Fund (PRDSF) with an initial corpus of Rs. 150 crores and utilization of interest accrued on PRDSF for providing financial assistance for R&D projects proposed by industry/

academic institutions/laboratories, and also for creation of State-of-art facilities in the country. The Government have also decided to constitute Drug Development Promotion Board under the administrative control of the Department of Science and Technology to operationalise the PRDSF. This Board will be assisted by an Expert Committee to screen R&D projects for financial support. The composition of the Board and the Expert Committee is as annexed.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries/Departments,

Government of India all the State Governments, all the Universities and Scientific Institutions in the country (CSIR/ICAR/ICMR/UGC, DRDO, etc).

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AMITABHA PANDE
Joint Secretary

Annexure

Composition of DDPB and Expert Committee
for PRDSF

I. Drug Development Promotion Board (DDPB) ;

Chairman—Secretary, DST

Members :

Director General, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)

Secretary, D/o Chemicals and Petrochemicals

Secretary, D/o Health

Secretary, D/o Ayush

Director General, Indian Council of Medical Research (ICMR)

Planning Commission (Industry Division)

JS/FA, DST.

Chairman Expert Committee

President, Indian Drug Manufacturers Association (IDMA)

President, Bulk Drug Manufacturers Association (BDMA)

President, Indian Pharmaceutical Alliance (IPA)

President, Indian Medical Association (IMA)

Member Secretary, (Head, Technology Transfer Division, DST)

II. Composition of Expert Committee for PRDSF ;

Chairman—An eminent scientist nominated by Secretary, DST.

Members

Representative of D/o Chemicals & Petrochemicals

Representative of D/o Health and Family Welfare

Representative of D/o Ayush

Representative of Indian Council of Medical Research (ICMR)

Representative of Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)

Representative of Department of Biotechnology (DBT)

Director, National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER)

Head, Technology Transfer, DST.

Four Experts to be nominated by Secretary DST

Member Secretary—Coordinating Officer in Technology Transfer Division.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th March 2004

RESOLUTION

No.2/9/2002-BM—Ministry of Water Resources issued a Resolution No. 2/9/2002-BM dated 13th February 2003 amending Para Nos 3 and 5 of the Resolution No. 1(7)/80-PP dated 26.8.1981 containing composition of Society and Governing Body of NWDA. NWDA Society in its special General Body meeting held on 9-1-1986 resolved to include Additional Secretary Union Ministry of Water Resources as Members of Society and Governing Body of NWDA.

The Ministry of Water Resources now modifies Para no. 3 of Resolution no. 1(7)/80-PP dated 26-8-1981 as modified by Resolution of even number dated 13-2-2003 to include Secretary or his nominee not below the rank of Joint Secretary, Union Ministry of Water Resources and Additional Secretary. Union Ministry of Water Resources as Members of Society. Para 5 of the above said Resolution is also further modified to include Additional Secretary. Union Ministry of Water Resources as Member of Governing Body of NWDA.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the concerned State Governments and the Union Territory, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office the Comptroller & Auditor General of India, the Planning Commission and all concerned Ministries/Departments of the Central Government for information.

2. Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the state Gazettes for general information.

A. D. BHARDWAJ
Commissioner

MINISTRY OF INFORMATION &
BROADCASTING

New Delhi, the 3rd March 2004

RESOLUTION

No. E-11015/8/2002-Hindi—Making partial amendment in the Resolution No. E-11015/8/2002-

Hindi dated 22-1-2003 of this Ministry the following entry is made in lieu of Sl. No. 1 and 2 :

At Sl. No. 1

Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Independent charge)—Chairperson

In the even numbered resolution, dated 22-1-2003 after deletion of S.No. 2, the succeeding S. Nos. will automatically stand changed.

ORDER

Ordered that a copy of Resolution be communicated to all the Members of the Committee, all State

Governments and Union Territories Administration, All Ministries /Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUDHIR SHARMA
Joint Secretary